

**वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पहलें**

क्रम सं.	कार्यान्वयन एजेंसी और रा.ल.उ.नि. कार्यालय का नाम	परियोजना (परियोजनाओं) का स्वरूप
1.	रामा फाउंडेशन शाखा कार्यालय नोएडा	घरेलू कामकाजी बच्चों/दैनिक दिहाड़ी मजदूरों, जो अपने घरों से दूर हैं, को शैक्षणिक सुविधाएं और पोषण अनुपूरक प्रदान करके चल रही परियोजना 'दुलार' के लिए सहायता। इस परियोजना से वर्ष के दौरान लगभग 50 बच्चे लाभान्वित होंगे।
2.	स्टार यूथ एसोसिएशन शाखा कार्यालय हैदराबाद	टेलरिंग के क्षेत्र में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया और प्रशिक्षणार्थियों को सिलाई मशीनें प्रदान की गईं। अनावर्ती व्यय में किराया, मुख्य अनुदेशक का वेतन, कटिंग मास्टर, टेलरिंग अनुदेशक और अन्य व्यय शामिल हैं। इस परियोजना से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की 30 महिलाएं लाभान्वित होंगी।
3.	हैंडिकैप्ड वेल्फेयर फेडरेशन शाखा कार्यालय संसद मार्ग/ अब शाखा कार्यालय दिल्ली	सीएसआर पहलों के अंतर्गत एनएसआईसी द्वारा पहले से स्थापित कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र की संचालन लागत प्रदान की गई। इस परियोजना के अंतर्गत व्यय मुख्य रूप से एक वर्ष के लिए संचालन लागत है, जिसमें प्रशासनिक और रखरखाव लागतें भी शामिल हैं। इस परियोजना से लगभग 180 छात्र लाभान्वित होंगे, जिनमें विशेष रूप से सक्षम भी शामिल हैं।
4.	मिथास फाउंडेशन शाखा कार्यालय चेन्नै	गरीबी रेखा से नीचे के बच्चों को कैंसर उपचार के लिए अनुसमर्थन कार्यक्रम प्रदान किया गया। कैंसर से प्रभावित बच्चों को कीमोथेरेपी (इंजेक्शन और औषधियां), रेडियो निदान, शल्यचिकित्सीय आवश्यकताएं, प्रॉस्थेटिक्स और पोषण समर्थन और शैक्षणिक सहायक

		यंत्र और सहयोग प्रदान किया गया। इसे कार्यक्रम प्रबंधक द्वारा प्रबंधित किया गया। इस परियोजना से गरीबी रेखा से नीचे के कैसर से प्रभावित लगभग 25 बच्चे लाभान्वित होंगे।
5.	स्वच्छ भारत कोष मुख्य कार्यालय	'स्वच्छ भारत कोष' में अंशदान दिया गया।
6.	गंगा स्वच्छ निधि मुख्य कार्यालय	'गंगा स्वच्छ निधि' में अंशदान दिया गया।